



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 21]  
No. 21]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 7, 2008/पौष 17, 1929  
NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 7, 2008/PAUSA 17, 1929

उपराष्ट्रपति सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 जनवरी, 2008

का.आ. 33(अ).—भारत के उपराष्ट्रपति ने पंजाब विश्व-विद्यालय, चंडीगढ़ के कुलाधिपति की हैसियत से पंजाब विश्वविद्यालय अधिनियम, 1947 (पंजाब विश्वविद्यालय कैलेंडर भाग-1, 2000) धारा 13(1)(जे) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रोफेसर ए.के. जाफरी, प्रोफेसर, जन्तु-विज्ञान (सेवा-निवृत्त), अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश को श्री लाला लाजपत राय के निधन से रिक्त हुए स्थान पर पंजाब विश्वविद्यालय के सीनेट के लिए सामान्य अध्येता के रूप में 4 जनवरी, 2008 से 31 अक्टूबर, 2008 तक के लिए मनोनीत किया है।

[सं. वी.पी.एस.-15/02/एस-4/2004-2008]

शमशेर के. शरीफ, भारत के उपराष्ट्रपति और  
पंजाब विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के सचिव

VICE-PRESIDENT'S SECRETARIAT

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th January, 2008

S.O. 33(E).—The Vice-President of India in his capacity as the Chancellor of Panjab University has been pleased under the powers vested in him by Section 13(1)(j) of the Panjab University Act, 1947 (Panjab University Calendar Vol. I, 2000) to nominate Prof. A. K. Jafri, Professor of Zoology (Retd.), Aligarh Muslim University, Uttar Pradesh against the vacancy caused by the sad demise of Shri Lala Lajpat Rai as Ordinary Fellow to the Senate of the Panjab University from January 4, 2008 to October 31, 2008.

[No. VPS-15/02/S-4/2004-2008]

SHUMSHER K. SHERIFF, Secy. to the  
Vice-President of India and Chancellor of the  
Panjab University